

ॐ

~~~~~

विद्या भवन,बालिका विद्यापीठ,लखीसराय ।

कक्षा-नवम्

विषय-हिन्दी

दिनांक-26/05/2020

दो बैलों की कथा

प्रेमचन्द

वस्तुनिष्ठ सवाल

卐 सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया 卐

शुभ प्रभात बच्चों,

शुभ प्रभात बच्चों,

आपका दिन मंगलमय हो !मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वह

छोटी-छोटी बातों में आवेश में आ जाता है और अच्छे-

बनते काम को भी बिगाड़ लेता है। इसलिए चाहिए कि

आवेश में न आएँ ।आवेश में आकर किया गया कोई भी

कार्य हितकारी नहीं ही होता है; इससे संबंधित मैं एक कहानी आप लोगों को बता रही हूँ। कहानी इस प्रकार है, एक अजगर को अपने आकार और पराक्रम पर बहुत अभिमान था। वह यह भी सोचता था कि जिसे भी अपनी पकड़ में जकड़ लेगा उसका कचूमर निकालकर ही छोड़ेगा। मंदिर की चौखट पर चढ़े हुए संगमरमर के शेर को उसने देखा, तो गुस्से में आगबबूला हो गया और गरज कर कहने लगा, मुझे देखकर बड़े- बड़े जानवर डरकर भागते हैं और एक तू है जो जहाँ का तहाँ अकड़ रहा है। शेर कुछ बोल नहीं सकता था, तो बोला भी नहीं। अजगर उससे लिपट गया और उसे निगलने का प्रयास करने लगा। उसका प्रयास निष्फल जाना था, सो गया। वह जितना गुस्सा होता और जोर से शेर पर आक्रमण करता, उतनी ही चोट उसे लगती और लहलुहान होता जाता। अंत में उसे अपनी मूर्खता समझ में आई और लहलुहान शरीर लेकर बिल में वापस लौट गया। आवेश ग्रस्त होने की यही दुर्दशा होती है। वह शेर तो निर्जीव

था और आवेश में आकर अजगर ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू किया। उस शक्ति के प्रदर्शन से क्या हुआ? उस शक्ति के प्रदर्शन से तो यही हुआ ,अजगर ही लहलुहान हो गया। आवेश ग्रस्त की ऐसी ही दुर्गति होती है। इसलिए कोई भी कार्य आवेश में आकर न करें।

अब मैं अपने अध्ययन सामग्री पर आती हूं। आज के अध्ययन सामग्री में मैंने सोचा कि क्यों नहीं आप लोगों से पढ़ाए गए पाठ से कुछ प्रश्न ही पूछ लिया जाए। जितना पढ़ा चुकी हूं उससे कुछ स्व मूल्यांकन होना अति आवश्यक है इसलिए आप आज इन सवालों को सुलझाएँ।

**दो बैलों की कथा (वस्तुनिष्ठ सवाल )**

1. जानवरों में सबसे बुद्धिहीन किसे समझा जाता है?

3. 'निरापद सहिष्णुता' का क्या अर्थ है?

- (i) अत्यंत भोलापन
- (ii) अत्यधिक मूर्खता
- (iii) अत्यधिक सहनशीलता
- (iv) सादगी

भाव नहीं होता?

- (i) बुद्धिमानी का
- (ii) बेवकूफी का
- (iii) सहनशीलता का
- (iv) सीधेपन का

---

4. गधे में किसके गुण पराकाष्ठा को पहुँच गए हैं?

- (i) आम आदमी के
- (ii) चोर डकैतों के
- (iii) ऋषि मुनियों के
- (iv) कुलीन वर्ग के लोगों के

5. भारतवासियों पर क्या आरोप लगाया जाता है?

- (i) वे गुस्सैल होते हैं
- (ii) वे कामचोर होते हैं
- (iii) वे झगड़ालू होते हैं
- (iv) वे जीवन का स्तर घटाते हैं

6. किस महीने में गधा एकाध बार मस्ती करता दिखाई देता है?

- (i) सावन
- (ii) भादो
- (iii) वैशाख
- (iv) आषाढ़

7. 'गुणों की पराकाष्ठा' का क्या अर्थ है?

- (i) गुणों का विशालकाय रूप
- (ii) गुणों का सागर
- (iii) गुणों का ना होना
- (iv) गुणों की चरम सीमा



---

8. झूरी ने दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया?

- (i) दादी घर
- (ii) नानी घर
- (iii) ससुराल
- (iv) बुआ के घर

9. ईश्वर ने बैलों को क्या नहीं दिया?

- (i) मकान
- (ii) वाणी
- (iii) पैसा
- (iv) इनमें से कोई नहीं

10. हीरा-मोती आपस में सींग मिलाकर क्यों उलझते थे?

- (i) जलन के कारण
- (ii) मारने के लिए
- (iii) प्रेमवश
- (iv) इनमें से कोई नहीं

कुमारी पिकी “कुसुम”

